

RAYMED LABS LIMITED

CIN: L24111UP1992PLC014240

Reg. off.-103 Emperor 1, Supertech Emerald Court, Sector 93A Noida,
UP – 201304, Website- www.raymedlab.com

E-mail- raymedlabs@rediffmail.com, Phone no. - 0120-2426900, 9412700300

Date: 03.08.2023

The Head- Listing Compliance

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers

Dalal Street

Mumbai-400001

Scrip Code: 531207

Sub: Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement of the Unaudited Standalone Financial Results of the company for the quarter ended 30th June, 2023 as was approved in the Board meeting held on Wednesday, 02nd August, 2023 (commenced at 3:30 P.M. and concluded at 04:15 P.M.), published in “Business Standard” (English) and in “Business Standard” (Hindi).

This is for your information and record.

**Thanking You,
For, Raymed Labs Limited**

**(Ajai Goyal)
Whole time Director
DIN: 02636418**

Place: Noida

Encl.: As above

Indian Bank Branch: Pratap Vihar Ghaziabad
Email: pratapvihar@indianbank.co.in

APPENDIX – IV [(Rule-8(1))] POSSESSION NOTICE (For immovable property)
Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 03.05.2023 Calling upon the borrower Hari Kishore Yadav and co-borrower Mrs. Khushboo Kumari with Pratap Vihar Branch to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 14,52,053.00 (Rupees Fourteen Lacs Fifty Two Thousand and Fifty Three Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 02nd day of August of the year 2023.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount Rs. 14,52,053.00 (Rupees Fourteen Lacs Fifty Two Thousand and Fifty Three Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part and parcel of the house constructed (Without roof rights) House No. H-91 B, Second Floor, Block-H, EWS, Sector-11, Pratap Vihar, Ghaziabad-201009, Area: 17.77 Sq.Mtr. Bounded by:
Bounded;
On the North: House No. 92-B & Road On the South: Open Land Ground Floor
On the East: Open Land Ground Floor On the West: House No. H-90 B

DATE: 02/08/2023, PLACE: Pratap Vihar Authorised Officer, (Indian Bank)

RAYMED LABS LIMITED
CIN: L24111UP1992PLC014240
Reg. off.: 103 Emperor 1, Supertech Emerald Court, Sector 93A, Noida, UP - 201304. Website: www.raymedlab.com
E-mail: raymedlabs@rediffmail.com. Phone No.: 0120-2426900, 9412700300

Extract of the Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended on 30th June, 2023 (Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

| Particulars | Quarter Ended | | Year Ended | |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | 30-06-2023 (Unaudited) | 31-03-2023 (Audited) | 30.06.2022 (Unaudited) | 31.03.2022 (Audited) |
| Total income from operations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Other Income | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| Net Profit/(loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| Net Profit/(Loss) for the period before Tax(after Exceptional and/or Extraordinary items) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| Net Profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| Total Comprehensive income for the period(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| Equity Share Capital | 427.35 | 427.35 | 427.35 | 427.35 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of previous year | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations:- | | | | |
| 1. Basic | (0.0370) | (0.1847) | (0.1204) | (0.0400) |
| 2. Diluted | | | | |

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of the Company at www.raymedlab.com

For Raymed Labs Limited
Sd/- (Ajai Goyal) (Whole Time Director) DIN: 02636418
Date: 02.08.2023 Place: Noida

HSIIDC Announces e-Auction of **Group Housing Sites** at Rohtak & Barhi

- Registration Start Date: 02.08.2023
- Closing of Registration/Deposit of EMD Date: 22.08.2023 (upto 23:59 Hrs)
- e-Auction Date (Tentative): 29.08.2023 (07:00 hrs. to 11:00 hrs.)
- Registration and e-Auction Portal: <https://hsiidc.bids.in>

| Estate/Sector/ Phase | Area (in sqm.) | Reserve price (in Rs. per sq. mtr.) | EMD (in Rs.) |
|---------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| IMT Rohtak, Phase-I, 30A | 8225.46 | 18850 | 77,52,496/- |
| IMT Rohtak, Phase-II, 30A | 4650 | 18850 | 43,82,625/- |
| IMT Rohtak, Phase-II, 30B | 60750 | 18850 | 5,72,56,875/- |
| IE Barhi, Phase-II | 4050 | 32200 | 65,20,500/- |

Bid increment @Rs. 200 per Sq. Mtrs.

For more details please refer the brochure available on website: www.hsiidc.org.in & auction portal www.hsiidc.bids.in

Note: (1) All details including extension in schedule of e-auction, clarification, amendments, addenda, corrigenda etc. will be uploaded on the website of the HSIIDC and will not be published in newspapers. Hence, applicants to regularly visit website of HSIIDC to keep themselves updated about such developments. Please visit www.hsiidc.org.in (2) The Corporation may without assigning any reason withdraw any or all the sites from e-auction process at any stage and is not bound to accept even the highest bid or any or all bids even if they are above the reserve price. HSIIDC reserves the right to accept or reject any or all the bids or cancel/postpone the bidding process without assigning any reasons therefor.

Haryana State Industrial & Infrastructure Development Corporation
Regd. Office: C-13 & 14, Sector-6, Panchkula, Ph. 0172-2590481-83. E-mail: contactus@hsiidc.org.in, Website: hsiidc.org.in

Union Bank **E-AUCTION SALE NOTICE ON 24TH AUGUST, 2023**

REWARI, BAHADURGARH, UKLANA MANDI HISAR, ROHTAK, MAHENDERGARH & ISMYLA 11 B BRANCHES
SALE NOTICE FOR SALE OF MOVABLE / IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged / charged to the Secured Creditor, the Constructive / Physical Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Union Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATSOEVER THERE IS" on the date mentioned below, for recovery of dues as mentioned hereunder to UNION BANK OF INDIA from the below mentioned Borrower(s) & Guarantor(s). The Reserve Price and the Earnest Money Deposit are also mentioned hereunder:-

| Sr. No. | Name of A/c & Branch Name | Scheduled Property | Debt Due with interest and cost | Date & Time of Auction |
|---------|---|---|---|--|
| 1. | Borrower(s):- (1) M/s Solarray Marketing India Pvt. Ltd., Shop No. 105 & 106, Kamala Palace, Circular Road, Dharuhera Chowk, Rewari - 123401 (2) Mr. Prithvi Raj S/o Mangal Singh, H. No. 279, Sunaria Tatarpur, Rewari, 123401 (3) Mr. Som Dev S/o Mangal Singh, H. No. 279, Sunaria Tatarpur, Rewari - 123401 (4) Mrs. Saroj W/o Somdev, H. No. 279, Sunaria Tatarpur, Rewari - 123401. BRANCH OFFICE: UNION BANK OF INDIA, OPP. HARYANA TOURISM, SAND PIPER, CIRCULAR ROAD, REWARI (123401); EMAIL: ubin0550001@unionbankofindia.bank, M: 9410496084 | Property-1:- Commercial Property situated at Shop No. 53-B, Kamla Palace, Circular Road, Dharuhera Chungi, Rewari, Tehsil & Distt: Rewari, Haryana vide Transfer Deed No. 1605 dated 11.06.2015 in the name of Mr. Somdev S/o Mr. Mangal Singh. Bounded by:- North: Shop No. 99 and 100; South: Common Passage; East: Shop No. 54-B; West: Shop No. 52-B. Property-2:- Commercial property situated at Shop No. 99-B & 100-B, Kamla Palace, Circular Road, Dharuhera Chungi, Rewari, Tehsil & Distt: Rewari, Haryana vide Transfer Deed No. 1605 dated 11.06.2015 in the name of Mr. Prithvi Raj S/o Mangal Singh. Bounded by:- North: Common Passage; South: Shop No. 53-B; East: Shop No. 98-B; West: Passage. Property-3:- Commercial property situated at Shop No. 98-B, Kamla Palace, Circular Road, Dharuhera Chungi, Rewari, Tehsil & Distt: Rewari, Haryana vide Transfer Deed No. 168 dated 11.04.2018 in the name of Mrs. Saroj W/o Somdev. Bounded by:- North: Common Passage; South: Shop No. 54-B; East: Shop No. 97-B; West: Shop No. 99-B. | Rs. 24,94,960.89 as per demand notice dated 11.10.2019 plus intt. & other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |
| 2. | Borrower(s):- M/s Jainarain Traders, H. No. 7403, Ram Gali, Blaauwara, Rewari - 123401 (2) Mr. Deepak S/o Dhani Ram, H. No. 7403, Ram Gali, Blaauwara, Rewari - 123401. BRANCH OFFICE: UNION BANK OF INDIA, OPP. HARYANA TOURISM, SAND PIPER, CIRCULAR ROAD, REWARI (123401); EMAIL: ubin0550001@unionbankofindia.bank, M: 9410496084 | Property-1:- Commercial Property owned by Mrs. Binla Devi W/o Mr. Dhani Ram measuring 11 sq yards situated at Shop No. 7408, Ram Gali, Blaauwara, Rewari, Teh. & Distt. Rewari. Bounded by:- North: Shop of Raju; South: Shop of Jagdish; East: House of Devi Shanti; West: Main / Gur Bazar. Property-2:- Residential property consisting House bearing House Tax No. 653/B, Measuring 205 Sq. Yards situated at Ajay Nagar, Tehsil & Distt: Rewari, Haryana vide Transfer Deed No. 5482 dated 20.01.2017 in the name of Mr. Tript Kumar S/o Late Sh. Kewal Ram. Bounded by:- North: House of Noht Ram; South: Road; East: Main Rasta; West: House of Lal Singh. | Rs. 11,28,243.69 as per demand notice dated 06.08.2022 plus intt. & other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |
| 3. | Borrower(s):- (1) M/s KS Fashions, Shop No. 9, Ground Floor, BMG Mall, Rewari - 123401 (2) Mr. Tript Kumar S/o Late Kewal Ram, H. No. 653/B, Ajay Nagar, Rewari - 123401 (3) Mrs. Neetu W/o Tript Kumar, H. No. 653/B, Ajay Nagar, Rewari - 123401 (4) Mrs. Santra Devi W/o Late Kewal Ram, H. No. 653/B, Ajay Nagar, Rewari - 123401. BRANCH OFFICE: UNION BANK OF INDIA, OPP. HARYANA TOURISM, SAND PIPER, CIRCULAR ROAD, REWARI (123401); EMAIL: ubin0550001@unionbankofindia.bank, M: 9410496084 | Residential property consisting House bearing House Tax No. 653/B, Measuring 205 Sq. Yards situated at Ajay Nagar, Tehsil & Distt: Rewari, Haryana vide Transfer Deed No. 5482 dated 20.01.2017 in the name of Mr. Tript Kumar S/o Late Sh. Kewal Ram. Bounded by:- North: House of Noht Ram; South: Road; East: Main Rasta; West: House of Lal Singh. | Rs. 22,08,607.84 as per demand notice dated 01.05.2021 plus intt. & other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |
| 4. | Borrower(s):- (1) Mrs. Geeta Devi W/o Late Daya Kishan, House No. 288/31, Gali No. 2, Chhikara Colony, Near Power House, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar - 124507 (2) Mr. Rajat S/o Late Daya Kishan, House No. 288/31, Gali No. 2, Chhikara Colony, Near Power House, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar - 124507 (3) Ms. Anjali D/o Late Daya Kishan, House No. 288/31, Gali No. 2, Chhikara Colony, Near Power House, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar - 124507. BRANCH OFFICE: UNION BANK OF INDIA, RAM BHAWAN, CHARAN SINGH MARKET, NEHRU PARK, ROHTAK ROAD, BAHADURGARH (04772), M.: 9213499957, E-mail: ubin0904775@unionbankofindia.bank | Property-1:- Residential Building owned by Sh. Daya Kishan S/o Om Parkash measuring 90 Sq. Yards situated Near Barhi Road, Gali No. 2, Chikara Colony, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana. Property-2:- Residential Building owned by Smt. Kusham W/o Prem Singh measuring 200 sq. yards situated at House No. 145/10, Part of Killa No. 117 Min, Near Sheela Bye Pass Chowk, Jasbir Colony, Rohtak | Rs. 21,44,655.80 as per demand notice dated 06.01.2018 plus interest and other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |
| 5. | Borrower(s):- (1) M/s Tamanna Medical Hall, Prop. Raj Kumar, Barhatta Approach Road, Uklana Mandi, Distt. Hisar - 125113 (2) Mr. Raj Kumar S/o Deva Singh, VPO Mughalpur, Tehsil Uklana, Distt. Hisar - 125113. BRANCH OFFICE: UNION BANK OF INDIA, WAZIR DEVI COLONY, NEAR GULSHAN TENT HOUSE, BUS STAND ROAD, UKLANA MANDI, DISTRICT HISAR (12511), E-MAIL: ubin0931551@unionbankofindia.bank, M.: 7015601717 | Commercial building owned by Sh. Raj Kumar D/o Sh. Deva Singh measuring 19.47 sq. yards situated at Ward No.4, Barhatta, Prem Gali, Uklana Mandi, Sub Teh. Uklana Mandi, Distt. Hisar. Bounded by:- North: Shop of Rambilas; South: Shop of Gopi Ram; East: Road; West: Prem Gali | Rs. 5,99,601/- as per demand notice dated 28.11.2022 plus intt. & other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |
| 6. | Borrower(s):- M/s Ma Sarsinsa Steels Pvt. Ltd., 507, 5th Floor Plot No. 8, Mangalam Paradise, Manglam Place, Sector 3, Rohini, Delhi 110085; (2) Mr. Nirmal Kumar Bindal, 117, Deepali, Pitampura, Delhi 110034; (3) Mr. Deepak Bindal, 117, Deepali, Pitampura, Delhi 110034; (4) Smt. Urmila Bindal, 117, Deepali, Pitampura, Delhi 110034. BRANCH OFFICE: SCF NO. 13 & 14, HUDA COMMERCIAL COMPLEX, CIVIL ROAD ROHTAK (05692), M.: 8607609898, E-MAIL: ubin0905691@unionbankofindia.bank | Residential Property measuring 1008 Sq. Yards situated at Property No. A-59, Kharsa No. 100/2/2, Swaran Park, Mundaka Industrial Area, Rohtak Road, Mundka Village, Delhi. | Rs. 41,67,65,237/- as per demand notice dated 12.10.2022 plus interest and other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |
| 7. | Borrower(s):- (1) M/s Bharat Timber & Stone Merchant, Nizampur Road, N a n g a l C h a u d h a r y, Mahendergarh - 123023 (2) Tara Chand S/o Nathu Ram, R/o Village Chhapra Bibipur, Nangal Chaudhary, Mahendergarh, Haryana-123023. BRANCH OFFICE: UNION BANK OF INDIA, G.B. COMPLEX SHOP NO.2, BLOCK-C, NARNOUL-JAIPUR ROAD, NANGAL CHAUDHARY, MAHENDERGARH (17981), E-MAIL: ubin0917982@unionbankofindia.bank, M.: 9729666677 | Commercial Building owned by Sh. Tara Chand S/o Nathu Ram measuring 48.88 sq. yds. situated at Within Khewat No.16, Khatoni No. 29, Killa No. 11/24(6-1), 25(5-7), 14/41(14-13), 5(8-0), 536(0-5), Dr. Naresch Wali Gali, Nangal Chaudhary, Mahendergarh. Bounded by:- North: Property of Others; South: Gali; East: Road; West: Property of Others | Rs. 11,28,217.50 as per demand notice dated 09.03.2021 plus intt. & other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |
| 8. | Borrower(s):- Sh. Rajeev Kumar S/o M. Randhir Singh, H. No. 1437/1, Surya Nagar, Hisar Bye Pass Road, Distt. Rohtak, Haryana-124001. BRANCH OFFICE: UNION BANK OF INDIA, 626 ISMYLA 11 B, DISTT. ROHTAK, M.: 9896362638, E-MAIL: ubin0829676@unionbankofindia.bank | Property being Residential House No. 1437/1 Ward No. 1 Gali No. 1, Near SD School Singhapura Road Rohtak measuring 215 sq yards in the name of Sh. Rajeev Kumar S/o Randhir Singh | Rs. 8,96,392/- as per demand notice dated 14.11.2022 plus interest and other expenses. 17.08.2023 from 11:00 am to 02:00 pm NIL | 24.08.2023 from 01:00 P.M. to 05:00 P.M. with unlimited extension of 10 Minutes i.e. the end time of E-Auction will be extended by 10 Minutes each time if bid is made within the last 10 Minutes before closure of auction. |

The refundable EMD 10% of RESERVE PRICE shall be payable by interested bidders through NEFT / RETGS / Fund Transfer on or before above mentioned date. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided Secured Creditor's website i.e. www.unionbankofindia.co.in and website "www.mstccommerce.com". In case of problem related to EMD transfer / EMD refund or any issue related to finance and account, bidder can directly contact the Help Desk Nos.: 033-22901004 / 033-22895064 or write E-mail to bbank@mstcindia.co.in, shembram@mstcindia.co.in

Registration and Login and Bidding Rules visit <https://www.mstccommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>

SALE NOTICE UNDER RULE 6(2), RULE 8(6) AND RULE 9(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002
This may also be treated as notice under rule 6(2), Rule 8(6) and Rule 9(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 to the Borrower/s, Mortgagee/s and Guarantor/s of the below said loan about the holding of E-Auction Sale on the above mentioned date.

Date: 02.08.2023 **AUTHORISED OFFICER, UNION BANK OF INDIA**

Punjab & Sind Bank **Corrigendum**

This is to inform that E-Auction Sale Notice published on dated 29.07.2023 in Business standard New Delhi NCR. In this regard, the Bank has Sr. No. 1. Outstanding amount Rs.736958.52 is wrongly published, correct amount Rs.204932.82 and Sr no. 2. (Reserve Price/EMD/Bid Incremental) amount is wrongly published Rs.14400000/-,1440000/-,1440000/-, Correct amount is Rs.12300000/-,1230000/-,123000/-.

APPENDIX – IV [(Rule-8(1))] POSSESSION NOTICE (For immovable property)
Whereas the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 23rd May 2023 Calling upon the borrowers:

1. Mrs. Shabana W/o Shamsad Khan (Borrower)
2. Mr. Shamsad Khan S/o Mr. Hanif Khan (Borrower)

Residential Address: Flat No. H 287 Ground Floor Block H LIG Sector 12 Pratap Vihar Ghaziabad Uttar Pradesh-201009.
Mortgaged Property Address: Flat No. H 287 Ground Floor Block H LIG Sector 12 Pratap Vihar Ghaziabad Uttar Pradesh-201009.

with our Inghram Institute Ghaziabad Branch to repay the amount mentioned in the notice dated 23rd May 2023 being Rs. 17,13,788.00 (Rupees Seventeen Lacs Thirteen Thousand Seven Hundred Eighty-Eight Only) plus interest thereon till the date of Repayment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub section (4) of section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this the 02nd day of August of the year 2023.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for an amount Rs. 17,13,788.00 (Rupees Seventeen Lacs Thirteen Thousand Seven Hundred Eighty-Eight Only) and interest/cost thereon from 23rd May 2023.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
All that part & parcel of Residential property at Flat No. 288 Ground Floor (without roof rights) Block H LIG Sector 12 Pratap Vihar Ghaziabad having an area of 32.09 Sq. Mt. in Name of Mrs. Shabana W/o Shamsad Khan.
North: Flat No. H-287 & Entrance East: Park
South: Flat No. H-291 West: Flat No. H-289

DATE: 02nd Aug 2023, PLACE: Ghaziabad Authorised Officer, (Indian Bank)

Indian Bank Branch: A-13, First Floor, DDA Commercial Complex, Defence Colony, Lajpat Nagar, New Delhi-110024, Tel: 011-24647203

APPENDIX – IV
Under Section 13(4) of Securitization Act, 2002 read with rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rule 2002
POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank, Appointed under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand notice dated 12.01.2018 calling upon the borrowers Dr. Sudhir Bajaj And Sunita Bajaj, 1) A-126 Yojana Vihar, Delhi-110092, 2) A-11, Anand Vihar Delhi-110092, 3) D-2, Ground Floor, Bharat Apartment, Chandra Nagar, Near-Ragunath Mandir, Ghaziabad, U.P. 201011, 4) Room No. 318, PGI Building, Ram Manohar Lohiya Hospital, New Delhi, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 76,64,383/- (Rupees Seventy Six Lakh Sixty Four Thousand Three Hundred Eighty Three Only) as on 11.01.2018 + unapplied interest. You are also liable to pay future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges etc.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him / her under Section 13(4) of the said Act read with rule 9 of the said Rules on this 1st day of August 2023.

The Borrower / Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank, Lajpat Nagar Branch for an amount of Rs. 76,64,383/- (Rupees Seventy Six Lakh Sixty Four Thousand Three Hundred Eighty Three Only) as on 11.01.2018 + unapplied interest. You are also liable to pay future interest at the contractual rate on the aforesaid amount together with incidental expenses, cost, charges etc. there on.

The borrower's attention is invited to provision of sub-section 8 of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY
Property Situated At Residential Plot No. A-126, Yojana Vihar, Delhi-110092 Bounded By: As Per Title deed.

DATE: 01.08.2023, Place: New Delhi Authorised Officer, (Indian Bank)

FORTIS MALAR HOSPITALS LIMITED
(CIN: L85110PB1989PLC045948)
Regd. Office: Fortis Hospital, Sector 62, Phase – VIII, Mohali-160062
Tel : 0172 5096001; Fax No : 0172 5096002
Website: www.fortismalar.com; Email: secretarial.malar@fortismalarhospitals.in


STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2023
(₹ in Lakhs except EPS)

| Particulars | Consolidated | | |
|---|---|---|---|
| | Quarter Ended June 30, 2023 (Unaudited) | Financial Year Ended March 31, 2023 (Audited) | Quarter Ended June 30, 2022 (Unaudited) |
| Revenue from Operations | 1,776.07 | 8,595.08 | 2,009.74 |
| Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | (292.44) | (700.79) | (295.95) |
| Loss for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (292.44) | (700.79) | (295.95) |
| Loss for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | (292.84) | (1,548.11) | (296.27) |
| Total Comprehensive loss for the period (Comprising loss for the period (after tax) and Other Comprehensive income (after tax)) | (302.48) | (1,595.91) | (279.64) |
| Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- per share) | 1875.70 | 1875.70 | 1875.70 |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year (as at March 31, 2023) | NA | 4,541.54 | NA |
| "Earnings Per Share (face value of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) - | | | |
| (a) Basic | (1.56) | (8.26) | (1.58) |
| (b) Diluted | (1.56) | (8.26) | (1.58) |

| Particulars | Standalone | | |
|-------------------------|---|---|---|
| | Quarter Ended June 30, 2023 (Unaudited) | Financial Year Ended March 31, 2023 (Audited) | Quarter Ended June 30, 2022 (Unaudited) |
| Revenue from Operations | 1,776.07 | 8,595.08 | 2,009.74 |
| Loss Before Tax | (294.03) | (707.75) | (297.24) |
| Loss After Tax | (294.03) | (1,553.32) | (297.24) |

1. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2023 submitted with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the websites of the Stock Exchange i.e. www.bseindia.com and that of the company at www.fortismalar.com.

Fortis Malar Hospitals Limited
For and on Behalf of Board of Directors
Sd/- Chandrasekar R
Whole Time Director
DIN: 09414564
Place : Chennai
Date : August 02, 2023



संक्षेप में

अदाणी विल्मर को 79 करोड़ रुपये का घाटा

प्रमुख खाद्य तेल विनिर्माता कंपनी अदाणी विल्मर को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि यह घाटा खाद्य तेल कीमतों में गिरावट के कारण हुआ है। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 194 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। जून तिमाही में कुल आय भी 12 प्रतिशत गिरकर 12,928 करोड़ रुपये रह गई, जो बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 14,724 करोड़ रुपये थी। अदाणी विल्मर खाद्य तेल और अन्य खाद्य वस्तुओं को फॉर्च्यून ब्रांड के अंतर्गत बेचती है। अदाणी विल्मर के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अंगशु मलिक ने कहा, खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के साथ हमने इस खंड में अपनी गति पकड़ ली है। खाद्य तेल कीमतों में गिरावट उद्योग की दृष्टि से अच्छी है।

टाइटन का शुद्ध लाभ 4 प्रतिशत घटा

आभूषण और घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ चार प्रतिशत घटकर 756 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने बीते वित्त वर्ष की समान तिमाही में 790 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि कुल आय जून तिमाही में बढ़कर 11,070 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 9,131 करोड़ रुपये थी। टाइटन के प्रबंध निदेशक सी के वेंकटरमन ने कहा, हमारे लिए वर्ष की शुरुआत व्यावसायिक क्षेत्रों में दोहरे अंक में राजस्व वृद्धि के साथ अच्छी रही है।

सांघी सीमेंट खरीदेगी अदाणी

देव चटर्जी मुंबई, 2 अगस्त

अदाणी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट 6 हजार करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर सांघी सीमेंट खरीदेगी। एक बैंकिंग सूत्र ने बताया कि अदाणी समूह एक सांघी सीमेंट में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपये निवेश करेगा और साथ ही कंपनी का करीब 1,500 करोड़ रुपये का कर्ज भी अपने खाते में लेगा। सांघी सीमेंट की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। सांघी सीमेंट की उत्पादन क्षमता 61 लाख टन है और इस सांघी से अंबुजा सीमेंट और उसकी

| टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| निविदा सूचना आमंत्रित | | | |
| निविदा पृष्ठताछ सं. कार्य का विवरण | अनुमानित लागत/व्यय/वैशेष (₹) | बोली दस्तावेज की तिथि | बोली जमा करने की तिथि/बोली खोलने की तिथि |
| TPDDL/ENGG/ENQ/200001574/23-24 Annual Rate Contract for Supply of GI Pipe (40mm, 100mm & 150mm) | 74 Lacs/ 1,86,000 | 04.08.2023 | 25.08.2023/1500 Hrs/ 25.08.2023/1530 Hrs |
| निविदा पृष्ठताछ सं. कार्य का विवरण | पूर्व प्रकाशित दिनांक | संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा करने की तिथि/बोली खोलने की तिथि | |
| TPDDL/ENGG/ENQ/200001564/23-24 ISS Implementation at new Upcoming Grids | 07.07.2023 | 16.08.2023 at 1600 Hrs/ 16.08.2023 at 1630 Hrs | |

| रेमेड लैब्स लिमिटेड | | | | |
|--|---------------|------------|-------------|------------|
| 30 जून, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार | | | | |
| विवरण | तिमाही समाप्त | | वर्ष समाप्त | |
| | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 30.06.2022 | 31.03.2023 |
| प्रचालनी से कुल आय | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| अन्य आय | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 2.06 |
| अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, विधिगत और / या असाधारण मदों के पूर्व) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विधिगत और / या असाधारण मदों के पश्चात) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (विधिगत और / या असाधारण मदों के पश्चात) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल) | -1.58 | -7.89 | -5.15 | -17.09 |
| इकोनोमिक्स शेर पूंजी | 427.35 | 427.35 | 427.35 | 427.35 |
| अवधि के लिए कुल समग्र आय (अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) शामिल) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. मूल | (0.0370) | (0.1847) | (0.1204) | (0.0400) |
| 2. उतार | | | | |

भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट (पी-नोट) के जरिये होने वाला निवेश जून के अंत में बढ़कर 1.13 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साढ़े पांच वर्षों का उच्चतम स्तर है। इस राशि में पी-नोट्स के जरिये भारत के इक्विटी, ऋण एवं हाइब्रिड प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के आंकड़े बताते हैं कि पी-नोट के माध्यम से निवेश में बढ़ोतरी लगातार चौथे महीने जारी रही। पी-नोट को सेबी के पास पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) उन विदेशी निवेशकों को जारी करते हैं जो यहां सीधे तौर पर पंजीकृत हुए बर निवेश करना चाहते हैं।

वेदांत का हिस्सा बेचेंगे प्रवर्तक

4.3 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 50 करोड़ डॉलर जुटाएंगे प्रवर्तक, रकम से चुकाएंगे कर्ज

देव चटर्जी मुंबई, 2 अगस्त

अनिल अग्रवाल प्रवर्तित इकाई टिन स्टार होल्डिंग्स अपना कर्ज चुकाने के लिए भारत में सूचीबद्ध अपनी सहायक वेदांत लिमिटेड की 4.3 फीसदी हिस्सेदारी बेचकर 50 करोड़ डॉलर जुटा रही है। शेरों की बिक्री गुरुवार सुबह होगी और वेदांत के बुधवार के बंद भाव 272 रुपये के मुकाबले 5 फीसदी कम पर इसकी पेशकश की गई है। लेनदेन की शर्तों से यह जानकारी मिली। अभी वेदांत में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 68.11 फीसदी है। कंपनी का कुल मूल्यांकन बुधवार को 1.01 लाख करोड़ रुपये रहा।



वेदांत का इरादा 2023-24 में अपना कर्ज घटाकर इसे शून्य करने का है

पिछले कुछ महीनों में अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली लंदन की वेदांत रिसोर्सिंस ने अपना कर्ज चुकाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिससे विश्लेषक उम्मीद कर रहे हैं कि वेदांत रिसोर्सिंस अगले 12 महीने में करीब 2 अरब डॉलर के कर्ज का भुगतान कामयाबी के साथ कर लेगी। भारत में सूचीबद्ध सहायक की हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने की ताजा कवायद से प्रवर्तक इकाई को आगामी महीनों में परिपक्व होने वाले कर्ज के भुगतान में मदद मिलेगी। बैंकिंग सूत्रों ने यह जानकारी दी।

समूह की प्रवर्तक इकाइयां पिछले कुछ महीने से रकम जुटाने में लगी हुई है क्योंकि उसने जेपी मॉर्गन से 85 करोड़ डॉलर, ओकट्री कैपिटल से 25 करोड़ डॉलर, ग्लेनकोर से 20 करोड़ डॉलर और कर्माडिटी ट्रेडर ट्राफिगरा से 20 करोड़ डॉलर का कर्ज लेकर कुल 1.3 अरब डॉलर जुटाए हैं। प्रवर्तकों ने अपनी भारतीय सहायक से ज्यादा रॉयल्टी भुगतान के जरिए भी रकम जुटाई है। इसके अलावा पिछले वित्त वर्ष में

वेदांत लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को रिपोर्ट 37,758 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जिससे मूल कंपनी को अपना कर्ज चुकाने में मदद मिली है। शेयर बिक्री पर वेदांत लिमिटेड ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वेदांत लिमिटेड से उदारतापूर्वक लाभांश मिलने के बाद वेदांत रिसोर्सिंस ने मई व जून में देय 1.4 अरब डॉलर के बॉन्ड का भुगतान किया और अपना सकल कर्ज मार्च 2023 के आखिर के

7.8 अरब डॉलर से घटाकर 6.4 अरब डॉलर पर ला दिया। कंपनी ने इस साल मई में यह जानकारी दी थी। वेदांत समूह का इरादा 2023-24 में अपना कर्ज और घटाने और अंततः इसे शून्य पर लाने का है। मार्च 2022 में लक्ष्य की घोषणा के बाद से उसने अपने सकल कर्ज में 3.3 अरब डॉलर की कमी की है। वेदांत रिसोर्सिंस का कर्ज मार्च 2022 के आखिर में 9.7 अरब डॉलर था। कंपनी ने पहले के बयान में यह जानकारी दी थी। समूह के पास अभी भी रकम जुटाने के कई विकल्प हैं, जिनमें वेदांत की हिंदुस्तान जिंक में बची बाकी हिस्सेदारी की गिरवीरखना शामिल है। विश्लेषकों को अनुमान है कि इससे 19 करोड़ डॉलर का और कर्ज जुटाया जा सकता है। विश्लेषकों के मुताबिक, वेदांत रिसोर्सिंस की पहुंच विभिन्न बैंक जमाओं के रूप में 1.7 अरब डॉलर के फंड, बॉन्ड व न्युचुअल फंडों तक है, जिसे कर्ज चुकाने के लिए निकाला जा सकता है। इसके अलावा प्रवर्तक वेदांत लिमिटेड से अतिरिक्त लाभांश की मांग कर सकते हैं, जिसने वित्त वर्ष 24 के लिए कुल 83 करोड़ डॉलर के पहले अंतरिम लाभांश का ऐलान किया है। इसमें से वेदांत रिसोर्सिंस को वेदांत लिमिटेड में अपनी 68.11 फीसदी हिस्सेदारी के लिए 56.5 करोड़ डॉलर का लाभांश मिला है।

5,000 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं के लिए एलओआई



भाषा बेंगलूर, 2 अगस्त

कर्नाटक सरकार ने राज्य में लगभग 5,000 करोड़ रुपये के संभावित निवेश की दो परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी फॉक्सकॉन (एपल के लिए आईफोन बनाने वाली प्रमुख कंपनी) के साथ आशय पत्र (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में 13,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एलओआई पर हस्ताक्षर हाल ही में चेन्नई में कर्नाटक सरकार और फॉक्सकॉन के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने किए। इस कार्यक्रम में बड़े और मझोले उद्योग और अवसरचर्चा विकास मंत्री एम बी पाटिल और आईटी और बीटी, ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरोने ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू और कंपनी के अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों परियोजनाओं में से एक फोन एनक्लोजर परियोजना है, जिसके तहत फॉक्सकॉन की सहायक कंपनी 12,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के साथ 35 करोड़ डॉलर (3,000 करोड़ रुपये) का निवेश करने की योजना बना रही है। वहीं दूसरी परियोजना 25 करोड़ डॉलर (2,000 करोड़ रुपये) के अनुमानित निवेश और 1,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन के साथ एप्लाइड मैटेरियल के सहयोग से सेमीकॉन उपकरण परियोजना है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि एलओआई में उन दो परियोजनाओं की रूपरेखा का ब्योरा दिया गया है जिन्हें फॉक्सकॉन राज्य में स्थापित करने की योजना बना रहा है।

आईओबी का शुद्ध लाभ 28 फीसदी बढ़ा

बीएस संवाददाता और भाषा चेन्नई/नई दिल्ली/मुंबई, 2 अगस्त

इंडियन ओवरसीज बैंक का वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 28 फीसदी बढ़कर 504 करोड़ रुपये गया। मुख्य रूप से ब्याज से आय बढ़ने के कारण बैंक का मुनाफा पिछले साल की पहली तिमाही के 393 करोड़ रुपये से बढ़कर इस बार 504 करोड़ रुपये हो गई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक की कुल आय भी पिछले साल के 5,031 करोड़ रुपये के मुकाबले 24 फीसदी बढ़कर 6,234 करोड़ रुपये हो गई। जून के अंत तक बैंक की सकल गैर निष्पादित आस्तियां (जीएनपीए) सुधरकर 7.13 फीसदी हो गई, जो इससे पिछली तिमाही में 9.12 फीसदी थी। शुद्ध एनपीए भी पिछले साल की पहली तिमाही के 2.43 फीसदी से सुधरकर जून 2023 में 1.44 फीसदी हो गई। इस तरह से इसमें कुल मिलाकर 1,108 करोड़ रुपये की कमी आई। प्रावधान कवरेज अनुपात भी वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 91.86 प्रतिशत की तुलना में जून 2023 तक सुधरकर 94.03 प्रतिशत हो गया। वित्त वर्ष 2024 की पहली तिमाही में बैंक का परिचालन लाभ भी पिछले साल के 1,027 करोड़ रुपये से 31.4 फीसदी बढ़कर 1,349 करोड़ रुपये हो गया। बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'तिमाही के

दौरान हमारी वृद्धि का एक प्रमुख कारण ब्याज से होने वाली आय में वृद्धि थी। इस अवधि के दौरान, जहां हमारी स्लीपेज लगभग 535 करोड़ रुपये की थी, वहीं हमारी वसूली 885 करोड़ रुपये से अधिक थी। आगे भी हम इस गति को बरकरार रखना चाहते हैं।' समीक्षाधीन तिमाही के दौरान कंपनी की ब्याज से होने वाली आय पिछले साल के 4,435 करोड़ रुपये से 22.3 फीसदी बढ़कर 5,424 करोड़ रुपये हो गई। तिमाही के दौरान बैंक की पूरी गिरावट खुदरा, कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों से आई।

गोदरेज प्रॉपर्टीज का शुद्ध लाभ 3 गुना हुआ

गोदरेज समूह की रियल स्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ करीब तीन गुना होकर 124.94 करोड़ रुपये रहा है। आमदनी बढ़ने से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में शुद्ध लाभ 45.55 करोड़ रुपये था। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने बुधवार को बताया कि अप्रैल-जून 2023-24 में उसकी कुल आय बढ़कर 1,265.98 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 426.40 रुपये थी। गोदरेज समूह की इकाई गोदरेज प्रॉपर्टीज देश की प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों में से है।

अंबुजा सीमेंट्स का जून तिमाही का मुनाफा 31.2 प्रतिशत बढ़ा

अंबुजा सीमेंट्स का एकीकृत शुद्ध लाभ 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही में 31.2 प्रतिशत बढ़कर 1,135.46 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि बिक्री बढ़ने और परिचालन लागत घटने की वजह से उसका मुनाफा बढ़ा है। अंबुजा सीमेंट्स अब अदाणी समूह का हिस्सा है। कंपनी ने पिछले साल की अप्रैल-जून तिमाही में 865.44 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का एकीकृत परिचालन राजस्व 8.46 प्रतिशत बढ़कर 8,712.90 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 8,032.88 करोड़ रुपये था। अंबुजा सीमेंट्स के बयान में कहा, 'बिक्री बढ़ने और दक्षता के मानकों पर सुधार से उसका मुनाफा बढ़ा है।' अंबुजा सीमेंट्स के एकीकृत नतीजों में उसकी अनुषंगी एसीसी लिमिटेड का वित्तीय प्रदर्शन भी शामिल है। एसीसी में अंबुजा सीमेंट्स की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 51 प्रतिशत है। पहली तिमाही में अंबुजा सीमेंट्स का कुल खर्च 2.6 प्रतिशत बढ़कर 7,469.74 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान तिमाही में 7,280.45 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में कंपनी का कुल एकीकृत राजस्व 9.87 प्रतिशत बढ़कर 8,976.14 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हालांकि, एकल आधार पर तिमाही के दौरान अंबुजा सीमेंट्स का शुद्ध लाभ 38.51 प्रतिशत घटकर 644.88 करोड़ रुपये पर आ गया।

कोल इंडिया: नया नाम, नई पहचान

पृष्ठ 1 का शेष

सुनिया की इस सबसे बड़ी खनन कंपनी ने 2017 में 'थिंक बिग' नारे के साथ 1 करोड़ डॉलर का अभियान शुरू किया था। साथ ही उसने अपने नाम से बिल्टन हटा दिया था। भारत में एनटीपीसी ने भी अपनी रीब्रांडिंग की और हरित ऊर्जा स्रोतों में निवेश करते समय अपना पुराना नाम नैशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन त्याग दिया। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने अलग कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी भी बनाई है। पीएफसी, आरईसी और एसजेवीएन जैसी कुछ अन्य कंपनियों ने भी अपने मुख्य कारोबार से इतर दूसरे क्षेत्रों में भी जाने के लिए अपने नाम छोटे किए हैं। मगर कुछ लोगों को इसमें बहुत असहजता है। कोल इंडिया के पूर्व चेयरमैन पार्थ भट्टाचार्य ने कहा कि कंपनी के लंबे वजूद के लिए कोयले से इतर संभावनाएं तलाशना जरूरी है मगर अभी उसे कोयला उत्पादन पर ही ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, 'अभी कोयले की मांग बहुत अधिक है, इसलिए कोल इंडिया को कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।'

कर्ज के बदले स्पाइसजेट में हिस्सा लेगी कालाइल

विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपने शेयरधारकों से अपने पट्टादाता कालाइल एविएशन पार्टनर के लिए 48 रुपये प्रति शेयर की दर से 5.91 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मांगी है। विमानन कंपनी ने कहा कि हिस्सेदारी देकर पट्टेदाता के 2.81 करोड़ डॉलर का कर्ज चुकाया जाएगा। कंपनी ने कहा, 'इससे कंपनी के कर्ज दिनदारीयों में कमी आएगी।' बुधवार को स्पाइसजेट के शेयर करीब 31 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। 27 फरवरी को विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा था कि वह कालाइल के 10 करोड़ डॉलर के कर्ज का पुनर्गठन करेगी। इसके बाद पट्टादाता विमानन कंपनी की 7.5 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगा। नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी को अपने विमान पट्टेदारों को समय पर भुगतान करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएस

रिलायंस रिटेल का मूल्य तेल-रसायन से दोगुना

शालीन डिसूजा मुंबई, 2 अगस्त

रिलायंस (आरआईएल) की खुदरा शाखा - रिलायंस रिटेल का मूल्य अब उसके दशकों पुराने और आकर्षक 'तेल-रसायन' (ओ2सी) खंड के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया है। समूह के संबंध में बर्नस्टीन की नवीनतम रिपोर्ट में इसके खुदरा कारोबार के लिए 112 अरब डॉलर के मूल्यांकन का अनुमान जताया गया है, जो इसके ओ2सी खंड के 57 अरब डॉलर के मूल्यांकन को बीना साबित कर रहा है। इसके अलावा अनुसंधान फर्म ने कंपनी की ई-कॉमर्स शाखा जियोमार्ट प्लेटफॉर्म का मूल्य 77 अरब डॉलर और अक्षय ऊर्जा कारोबार का मूल्य 17 अरब डॉलर आंका है। रिपोर्ट में खुदरा कारोबार के लिए कई अवसरों की पहचान की गई है, जिसमें जियोमार्ट और नए वाणिज्य का विस्तार, स्थानीय किराना स्टोरों



112 अरब डॉलर के स्तर पर रिलायंस की खुदरा शाखा का मूल्य ओ2सी से करीब दोगुना : बर्नस्टीन

के साथ साझेदारी, मार्जिन विस्तार और रिलायंस रिटेल का प्रत्याशित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) शामिल है। ब्रोकरेज ने कहा कि रिलायंस सभी खंडों में नई संभावना तलाश रही है। आरआईएल ने शेयर

एक प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की उम्मीद है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स (आरआरवी) ने वर्ष 2020 में वित्तीय निवेशकों को 55 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। तब से खुदरा शाखा का मूल्यांकन लगभग दोगुना हो चुका है। बर्नस्टीन को यह भी उम्मीद है कि रिलायंस का एबिटा वित्त वर्ष 23 के 1.5 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 27 में 2.4 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगा। मुख्य रूप से डिजिटल रिटेल और नई ऊर्जा में वृद्धि की बदौलत ऐसा होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि ओ2सी की आय स्थिर रहेगी। हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 27 तक खुदरा एबिटा मिश्रण 17 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा, जो (कुल 13 प्रतिशत सीएजीआर की तुलना में) 21 प्रतिशत की एबिटा सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ रहा है।